

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 494] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 30, 1968/पौष 9, 1890
No. 494] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 30, 1968/PAUSA 29, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह मूल संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

ORDER

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 28th December, 1968

S.O. 4655/IECA/3/8/68.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely :—

1. This Order may be called the Imports (Control) Eighth Amendment Order, 1968.
2. In Schedule I to the Imports (Control) Order, 1955—
 - (i) In Part V, the following sub-serial number and entry shall be inserted, namely :—

S. No.	Name of the article	Item of the First Schedule to Indian Tariff Act, 1934'
122(1)	Yeast food and Yeast culture.	

(ii) In Part V, for S. No. 122(1) and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

1	2	3
122(ii)	Others	—

[No. 13/68.]

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports and Exports.